

संकटमोचन विनती
Saṅkaṭamōcana Vinatī

कविश्री वृन्दावनदास
Kaviśrī Vṛndāvanadāsa

हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥
मालिक हो दो जहान के जिनराज आपही ।
एबो-हुनर हमारा कुछ तुमसे छिपा नहीं ॥
बेजान में गुनाह मुझसे बन गया सही ।
ककरी के चोर को कटार मारिये नहीं ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥१॥

Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ॥
Mālika hō dō jahāna kē jinarāja āpahī ।
Ēbō-hunara hamārā kucha tumasē chipā nahīm ॥
Bējāna mērṅ gunāha mujhasē bana gayā sahī ।
Kakarī kē cōra kō kaṭāra māriyē nahīm ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ॥1॥

दुःख-दर्द दिल का आपसे जिसने कहा सही |
मुश्किल कहर से बहर किया है भुजा गही ||
जस वेद औ' पुरान में प्रमान है यही |
आनंदकंद श्री जिनेंद्र देव है तुही ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२||

Du:Kha-darda dila kā āpasē jisanē kahā sahī |
Muśkila kahara sē bahara kiyā hai bhujā ghī ||
Jasa vēda au' purāna mēm pramāna hai yahī |
Ānandakanda śrī jinēndra dēva hai tuhī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||2||

हाथी पे चढ़ी जाती थी सुलोचना सती |
गंगा में ग्राह ने गही गजराज की गती ||
उस वक्त में पुकार किया था तुम्हें सती |
भय टार के उबार लिया हे कृपापती ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||३||

Hāthī pē caḥī jātī thī sulōcanā satī |
Gaṅgā mēm grāha nē ghī gajarāja kī gatī ||
Usa vakta mēm pukāra kiyā thā tumhēm satī |
Bhaya ṭāra kē ubāra liyā hē kṛpāpatī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||3||

पावक-प्रचंड कुंड में उमंड जब रहा |
सीता से शपथ लेने को तब राम ने कहा ||
तुम ध्यान धार जानकी पग धारती तहाँ |
तत्काल ही सर-स्वच्छ हुआ कमल लहलहा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||४||

Pāvaka-pracaṇḍa kuṇḍa mēm umaṇḍa jaba rahā |
Sītā sē śapatha lēnē kō taba rāma nē kahā ||
Tuma dhyāna dhāra jānakī paga dhāratī tahām̃ |
Tatkāla hī sara-svaccha hu'ā kamala lahalahā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̃ na harō bēra kyā lagī ||4||

जब चीर द्रोपदी का दुःशासन ने था गहा |
सब ही सभा के लोग थे कहते हहा-हहा ||
उस वक्त भीर-पीर में तुमने करी सहा |
परदा ढँका सती का सुजस जगत् में रहा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||५||

Jaba cīra drōpadī kā du:Śāsana nē thā gahā |
Saba hī sabhā kē lōga thē kahatē hahā-hahā ||
Usa vakta bhīra-pīra mēm̃ tumanē karī sahā |
Paradā ḍhaṅkā satī kā sujasa jagat mēm̃ rahā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̃ na harō bēra kyā lagī ||5||

श्रीपाल को सागर-विषे जब सेठ गिराया |
उनकी रमा से रमने को वो बेहया आया ||
उस वक्त के संकट में सती तुम को जो ध्याया |
दुःख-दंद-फंद मेट के आंनद बढ़ाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||६||

Śrīpāla kō sāgara-viṣe jaba sēṭha girāyā |
Unakī ramā sē ramanē kō vō bēhayā āyā ||
Usa vakta kē saṅkaṭa mēm safī tuma kō jō dhyāyā |
Du:Kha-danda-phanda mēṭakē ānanda baṛhāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||6||

हरिषेण की माता को जहाँ सौत सताया |
रथ जैन का तेरा चले पीछे यों बताया ||
उस वक्त के अनशन में सती तुम को जो ध्याया |
चक्रेश हो सुत उसके ने रथ जैन का चलाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||7||

Hariṣeṇa kī mātā kō jahām̐ sauta satāyā |
Ratha jaina kā tērā cale pīche yōm batāyā ||
Usa vakta kē anaśana mēm safī tuma kō jō dhyāyā |
Cakrēśa hō suta usakē nē ratha jaina kā calāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||7||

सम्यक्त्व-शुद्ध शीलवती चंदना सती ।
जिसके नगीच लगती थी जाहिर रती-रती ॥
बेड़ी में पड़ी थी तुम्हें जब ध्यावती हती ।
तब वीर धीर ने हरी दुःख-दंद की गती ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥८॥

Samyaktva-śud'dha śīlavatī candanā satī ।
Jisakē nagīca lagatī thī jāhira ratī-ratī ॥
Bēḍī mēm paṛī thī tumhēm jaba dhyāvātī hatī ।
Taba vīra dhīra nē harī du:Kha-danda kī gatī ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ॥8॥

जब अंजना-सती को हुआ गर्भ उजारा ।
तब सास ने कलंक लगा घर से निकारा ॥
वन-वर्ग के उपसर्ग में तब तुमको चितारा ।
प्रभु-भक्त व्यक्त जानि के भय देव निवारा ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥९॥

Jaba añjanā-satī kō hu'ā garbha ujārā ।
Taba sāsa nē kalaṅka lagā ghara sē nikārā ॥
Vana-varga kē upasarga mēm taba tumakō citārā ।
Prabhu-bhakta vyakta jāni kē bhaya dēva nivārā ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ॥9॥

सोमा से कहा जो तूँ सती शील विशाला ।
तो कुंभ तें निकाल भला नाग जु काला ॥
उस वक्त तुम्हें ध्याय के सति हाथ जब डाला ।
तत्काल ही वह नाग हुआ फूल की माला ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥१०॥
Sōmā sē kahā jō tūm̃ safī śīla viśālā ।
Tō kumbha tem̃ nikāla bhalā nāga ju kālā ॥
Usa vakta tumhēm̃ dhyāya kē sati hātha jaba ḍālā ।
Tatkāla hī vaha nāga hu'ā phūla kī mālā ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm̃ na harō bēra kyā lagī ॥10॥

जब कुष्ठ-रोग था हुआ श्रीपाल राज को ।
मैना सती तब आपकी पूजा इलाज को ॥
तत्काल ही सुंदर किया श्रीपालराज को ।
वह राजरोग भाग गया मुक्त राज को ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥११॥
Jaba kuṣṭha-rōga thā hu'ā śrīpāla rāja kō ।
Mainā safī taba āpakī pūjā ilāja kō ॥
Tatkāla hī sundara kiyā śrīpālarāja kō ।
Vaha rājarōga bhāga gayā mukta rāja kō ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm̃ na harō bēra kyā lagī ॥11॥

जब सेठ सुदर्शन को मृषा-दोष लगाया ।
रानी के कहे भूप ने सूली पे चढ़ाया ॥
उस वक्त तुम्हें सेठ ने निज-ध्यान में ध्याया ।
सूली से उतार उसको सिंहासन पे बिठाया ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥१२॥

Jaba sēṭha sudarśana kō mṛṣā-dōṣa lagāyā ।
Rānī kē kahē bhūpa nē sūlī pe caṛhāyā ॥
Usa vakta tumhēr̄n sēṭha nē nija-dhyāna mēr̄n dhyāyā ।
Sūlī sē utāra usakō sinhāsana pe biṭhāyā ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mēr̄i vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ॥12॥

जब सेठ सु धन्ना जी को वापी में गिराया ।
ऊपर से दुष्ट फिर उसे वह मारने आया ॥
उस वक्त तुम्हें सेठ ने दिल अपने में ध्याया ।
तत्काल ही जंजाल से तब उसको बचाया ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥१३॥

Jaba sēṭha su dhannā jī kō vāpī mēm̄ girāyā ।
Ūpara sē duṣṭa phira usē vaha māranē āyā ॥
Usa vakta tumhēr̄n sēṭha nē dila apanē mēm̄ dhyāyā ।
Tatkāla hī jañjāla sē taba usakō bacāyā ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mēr̄i vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ॥13॥

इक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा |
भोजन का ठिकाना भी न था साँझ-सबेरा ||
उस वक्त तुम्हें सेठ ने जब ध्यान में घेरा |
घर उस के में तब कर दिया लक्ष्मी का बसेरा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१४||

Ika sēṭha kē ghara mēm̄ kiyā dāridra nē ḍērā |
Bhōjana kā ṭhikānā bhī na thā sām̄jha-sabērā ||
Usa vakta tumhēr̄n sēṭha nē jaba dhyāna mēm̄ ghērā |
Ghara usa kē mēm̄ taba kara diyā lakṣmī kā basērā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ||14||

बलि वाद में मुनिराज सों जब पार न पाया |
तब रात को तलवार ले शठ मारने आया ||
मुनिराज ने निज-ध्यान में मन लीन लगाया |
उस वक्त हो प्रत्यक्ष तहाँ देव बचाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१५||

Bali vāda mēm̄ munirāja sōm̄ jaba pāra na pāyā |
Taba rāta kō talavāra lē śaṭha māranē āyā ||
Munirāja nē nija-dhyāna mēm̄ mana līna lagāyā |
Usa vakta hō pratyakṣa tahām̄ dēva bacāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ||15||

जब राम ने हनुमंत को गढ़-लंक पठाया |
सीता की खबर लेने को सह-सैन्य सिधाया ||
मग बीच दो मुनिराज की लख आग में काया |
झट वारि-मूसलधार से उपसर्ग मिटाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१६||

Jaba rāma nē hanumanta kō gaṛha-laṅka paṭhāyā |
Sītā kī khabara lēnē kō saha-sain'ya sidhāyā ||
Maga bīca dō munirāja kī lakha āga mēm kāyā |
Jhaṭa vāri-mūsaladhāra sē upasarga miṭāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||16||

जिननाथ ही को माथ नवाता था उदारा |
घेरे में पड़ा था वह वज्रकर्ण विचारा ||
उस वक्त तुम्हें प्रेम से संकट में चितारा |
प्रभु वीर ने सब दुःख तहाँ तुरत निवारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१७||

Jinanātha hī kō mātha navātā thā udārā |
Ghērē mēm paṛā thā vaha vajrakarṇa vicārā ||
Usa vakta tumhēm prēma sē saṅkaṭa mēm citārā |
Prabhu vīra nē saba du:Kha tahām turata nivārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||17||

रणपाल कुँवर के पड़ी थी पाँव में बेड़ी |
उस वक्त तुम्हें ध्यान में ध्याया था सबेरी ||
तत्काल ही सुकुमाल की सब झड़ पड़ी बेड़ी |
तुम राजकुँवर की सभी दुःख-दंद निवेरी ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१८||

Raṇapāla kuṁvara kē paṛī thī pām̐va mēm̐ bēṛī |
Usa vakta tumhēm̐ dhyāna mēm̐ dhyāyā thā sabērī ||
Tatkāla hī sukumāla kī saba jhaṛa paṛī bēṛī |
Tuma rājakuṁvara kī sabhī du:Kha-danda nivērī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̐ na harō bēra kyā lagī ||18||

जब सेठ के नंदन को डसा नाग जु कारा |
उस वक्त तुम्हें पीर में धर धीर पुकारा |
तत्काल ही उस बाल का विष भूरि उतारा |
वह जाग उठा सोके मानो सेज सकारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१९||

Jaba sēṭha kē nandana kō ḍasā nāga ju kārā |
Usa vakta tumhēm̐ pīra mēm̐ dhara dhīra pukārā ||
Tatkāla hī usa bāla kā viṣa bhūri utārā |
Yaha jāga uṭhā sōkē mānō sēja sakārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̐ na harō bēra kyā lagī ||19||

मुनि मानतुंग को दई जब भूप ने पीरा |
ताले में किया बंद भरी लोह-जंजीरा ||
मुनि-ईश ने आदीश की थुति की है गंभीरा |
चक्रेश्वरी तब आनि के झट दूर की पीरा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२०||

Muni mānātuṅga kō dai jaba bhūpa nē pīrā |
Tālē mēm̄ kiyā banda bharī lōha-jañjīrā ||
Muni-iśa nē ādīśa kī thuti kī hai gambhīrā |
Cakrēśvarī taba āni kē jhaṭa dūra kī pīrā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ||20||

शिवकोटि ने हठ था किया समंतभद्र-सों |
शिव-पिंडि की वंदन करो शंको अभद्र-सों ||
उस वक्त 'स्वयंभू' रचा गुरु भाव-भद्र-सों |
जिन-चंद्र की प्रतिमा तहाँ प्रगटी सुभद्र सों ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२१||

Śivakōṭi nē haṭha thā kiyā samantabhadra-sōm̄ |
Śiva-piṇḍi kī vandana karō śaṅkō abhadra-sōm̄ ||
Usa vakta 'svayambhū' racā guru bhāva-bhadra-sōm̄ |
Jina-candra kī pratimā tahām̄ pragaṭī subhadra sōm̄ ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ||21||

तोते ने तुम्हें आनि के फल आम चढ़ाया |
मैंढक ले चला फूल भरा भक्ति का भाया ||
तुम दोनों को अभिराम-स्वर्गधाम बसाया |
हम आप से दातार को लख आज ही पाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२२||

Tōtē nē tumhēm āni kē phala āma caṛhāyā |
Mēṇḍhaka lē calā phūla bharā bhakti kā bhāyā ||
Tuma dōnōrṁ kō abhirāma-svargadhāma basāyā |
Hama āpa sē dātāra kō lakha āja hī pāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōrṁ na harō bēra kyā lagī ||22||

कपि-श्वान-सिंह-नेवला-अज-बैल बिचारे |
तिर्यच जिन्हें रंच न था बोध चितारे ||
इत्यादि को सुर-धाम दे शिवधाम में धारे |
हम आप से दातार को प्रभु आज निहारे ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२३||

Kapi-śvāna-sinha-nēvalā-aja-baila bicārē |
Tiryancha jinhēm rañca na thā bōdha citārē ||
Ityādi kō sura-dhāma dē śivadhāma mēm dhārē |
Hama āpa sē dātāra kō prabhu āja nihārē ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |
Yaha mērī vithā kyōrṁ na harō bēra kyā lagī ||23||

तुम ही अनंत-जंतु का भय-भीर निवारा ।
वेदो-पुराण में गुरु-गणधर ने उचारा ॥
हम आपकी शरणागती में आके पुकारा ।
तुम हो प्रत्यक्ष-कल्पवृक्ष इच्छिताकारा ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥२४॥

Tuma hī ananta-jantu kā bhaya-bhīra nivārā ।
Vēdō-purāṇa mēm̄ guru-gaṇadhara nē ucārā ॥
Hama āpakī śaranāgatī mēm̄ ākē pukārā ।
Tuma hō pratyakṣa-kalpavṛkṣa icchitākārā ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ॥24॥

प्रभु भक्त व्यक्त भक्त जक्त मुक्ति के दानी ।
आनंदकंद-वृंद को हो मुक्त के दानी ॥
मोहि दीन जान दीनबंधु पातक भानी ।
संसार विषम-खार तार अंतर-जामी ॥
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी ।
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ॥२५॥

Prabhu bhakta vyakta bhakta jakta mukti kē dānī ।
Ānandakanda-vṛnda kō hō mukta kē dānī ॥
Mōhi dīna jāna dīnabandhu pātaka bhānī ।
Sansāra viṣama-khāra tāra antara-jāmī ॥
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī ।
Yaha mērī vithā kyōm̄ na harō bēra kyā lagī ॥25॥

करुणानिधान बान को अब क्यों न निहारो |

दानी अनंतदान के दाता हो सँभारो ||

वृषचंद-नंद 'वृंद' का उपसर्ग निवारो |

संसार विषम-खार से प्रभु पार उतारो ||

हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |

यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२६||

Karuṇānidhāna bāna kō aba kyōm na nihārō |

Dānī anantadāna kē dātā hō saṁbhārō ||

Vṛṣacanda-nanda 'vṛnda' kā upasarga nivārō |

Sansāra viṣama-khāra sē prabhu pāra utārō ||

Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānājī |

Yaha mērī vithā kyōm na harō bēra kyā lagī ||26||

* * * A * * *